



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15—अक्टूबर 21, 2016 (आश्विन 23, 1938)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2016 (ASVINA 23, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

नीति आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2016

सं. एम—13040/19/2016—अवसंरचना (पार्ट फाईल)—राष्ट्रपति, श्री ब्रजेश कुमार माथुर, सीएसएस अवसर सचिव, यूपीएससी (सीएसएल सं. 6635) का प्रमुख (प्रशासन) में चयन होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 12.09.2016 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड—3 15,600— 39,100/— (ग्रेड वेतन 7,600/— रु.) (पूर्व संशोधित) में नीति आयोग (अटल नवोन्मेष मिशन) में प्रतिनियुक्ति आधार पर मार्च 2017 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो प्रमुख (प्रशासन) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राम विलास प्रेमी, अवसर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 21 सितम्बर 2016

सं. ए—19/जी—ए/107—सुश्री पदमा आँगमो (आई आई एस: 2002), उप सचिव जिनकी सेवाएं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक 04.10.2011 के का. ज्ञा. सं. 14/4/2011—ई ओ (एम एम—1) के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 13.01.2002 की अधिसूचना संख्या ए—19/जी—ए/107 के अनुसार मूल रूप से चार वर्ष की

अवधि के लिए भारत निर्वाचन आयोग के अधिकार में रखी गई थी, की प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसे छह माह के लिए 30.06.2016 तक विस्तारित किया गया था, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 15.09.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14/4/2011—ई ओ (एम एम—1) के अनुसरण में 01.07.2016 से और आगे छह माह की अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है।

बी. सी. पात्रा, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2016

सं. ए—37012/03/2008—वि.सा.प्र.(प्रशा.)—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. श्री एम. सी. पाड़ेय, संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय को तारीख 21 सितम्बर 2016 पूर्वाह्न से उक्त प्रकाशन में वेतन बैंड—4 37,400—67,000/— रुपये जमा ग्रेड वेतन 8,700/— रुपये के (स्तर—13 पे—मैट्रिक—सातवे पे कमीशन) वेतनमान में प्रोन्नत के आधार पर स्थानापन्न प्रधान संपादक नियुक्त करते हैं।

देवदत्त बेहेरा, अवर सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2016

सं. ए—19011/1/2014—प्रशा.—III(वि.का.)—विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2000 के नियम 9 के अनुसार, 65 वर्ष की आयु होने पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री विनय कुमार माथुर ने दिनांक 13 सितम्बर, 2016 (अपराह्न) को विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है।

उष्णि कृष्णन टी, अवर सचिव

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली—110011, दिनांक 20 सितम्बर 2016

सं. 12/56/2016—स्था.—राष्ट्रपति, भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के अधिकारी श्री जे. पी. भट्टाचार्य को 37,400—67,000/— एवं ग्रेड पे 10,000/— रुपये के वेतनमान में दिनांक 8 जुलाई, 2016 के पूर्वाह्न से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त करते हैं।

ए. के. पाण्डे, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 2016

सं. 24011/02/2015—स्थापना (ख)—राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार पाण्डेय (आईआरएलए सं. 11480), आईआईएस को 15 जुलाई, 2016 (अपराह्न) से 10,000/— रु. (संशोधन—पूर्व) के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड—4 37,400—67,000/— रु. के वेतनमान में 31.03.2017 को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक प्रतिनियुक्ति पर तथा इसके पश्चात् 01.04.2017 से उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अगले आदेश, जो भी पहले हो, होने पर पुनःनियोजन के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली में सदस्य, (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त करते हैं।

पी. के. जायसवाल, अवर सचिव

दिनांक 24 अगस्त 2016

सं. 24012/04/2016—स्था. (ख)—राष्ट्रपति, श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर, आईटीएस (93) को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत दिनांक 01.07.2016 (पूर्वाह्न) से प्रतिनियुक्ति आधार पर पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों जो भी पहले हो, तक के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एनआर), नई दिल्ली में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

दिनांक 28 सितम्बर 2016

सं. 39019/09/2014—स्था. (ख)—65 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर श्री दीपक गुप्ता ने 20 सितम्बर, 2016 अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद त्याग दिया है।

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2016

सं. ए-32015/8/2006—संवर्ग (प्रशा. IV)—वरिष्ठता कोटा हेतु वर्ष, 2015 की वरिष्ठता सूची के लिए केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी संवर्ग की चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, वर्तमान में उकने नाम के सामने उल्लिखित कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारी को केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी (समूह 'ख' राजपत्रित) के रूप में, दिनांक 30.03.2016 से नेक्स्ट बिलो रूल के तहत प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम	चयन वर्ष सूची	कार्यालय जहां वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है
श्रीमती एस. राजलक्ष्मी	2015 (वरिष्ठता कोटा)	प्रसार भारती में अनुभाग अधिकारी

कुलभूषण मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर 2016

सं. 14012/01/2014—अ.भा.से. III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष, 2011 के पश्चिम बंगाल संवर्ग के सदस्य श्री उमा शंकर को दिनांक 29.08.2013 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

सं. 14013/02/2016—अ.भा.से. III—भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तारीख/तारीखों से स्थायी करते हैं :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	बैच	स्थायीकरण की नियम तारीख
1.	दुर्गादास गोस्वामी	2000	25.08.2012
2.	पियाली सेनगुप्ता	2002	13.01.2013

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 सितम्बर 2016

सं. 5/2016 (फा.सं. ए-12026/05/2016—सक्षम प्राधिकारी)—श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त क्षेत्र आयोजक, फ्रंटियर मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल, पटना को, भारत के राष्ट्रपति, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 (पूर्वाह्न) से 31 अगस्त, 2020 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर सक्षम प्राधिकारी और प्रशासक एवं तस्कर

और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, चेन्नई के कार्यालय में संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. भौमिक, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 2016

सं. ए-19011/11/2016—स्थापना—राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 03.08.2016 के आदेश संख्या 12015/03/2014—आईएसएस (खंड-V) के अनुसरण में, आईएसएस संवर्ग के श्री मोइनक मुखर्जी को दिनांक 01.09.2016 के पूर्वाह्न से वित्तीय सेवाएं विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

मनीष कुमार, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

कोलकाता-700107, दिनांक 8 सितम्बर 2016

सं. 26(3)/82—स्था. I—डॉ. दीपांकर सिन्हा, महानिदेशक अधिवर्षिता की आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 31.08.2016 को शासकीय सेवा से सेवामुक्त हो गए हैं।

र. च. शुक्लाबैद्य, उप निदेशक/कार्यालय प्रमुख

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2016

सं. 13/2016(ए-32013/2/2015/मा.सं.वि.-1)—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक निदेशक, विदेश व्यापार को उनकी पदोन्नति के पश्चात उप महानिदेशक, विदेश व्यापार (भारतीय व्यापार सेवा के वरिष्ठ काल-मान) के पद पर उनके नाम के आगे उल्लिखित तिथि से संशोधित वेतन मैट्रिक्स 11-67700-208700/- रुपये में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री जय पाल	27.06.2016
2.	श्री गगनदीप सिंह	09.06.2016
3.	श्री नितीश सूरी	20.06.2016
4.	श्री आलोक द्विवेदी	22.06.2016
5.	श्री कौशलेन्द्र प्रताप सिंह	21.06.2016
6.	श्री विशाल शर्मा	15.06.2016
7.	श्री राजीव कुमार सोनी	10.06.2016

निर्मल कुमार, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2016

सं. ए-12026/5/2016—स्था.—राष्ट्रपति, सुश्री देवांशी वीरेन शाह को वस्त्र मंत्रालय में पे बैंड-3 (15,600—39,100/- रुपए) + 6,600/- रुपए के ग्रेड पे में श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, वस्त्र मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर 03 अगस्त, 2016

के पूर्वाह्न से मंत्री के साथ सहअस्तित्व आधार पर अथवा मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर कार्य करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 अगस्त 2016

सं. ए-19011/11/2012-स्था.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2016-सीएस.1(डी) के माध्यम से वर्ष 2012 के सीएसएस के चयन ग्रेड (उप-सचिव) की चयन सूची में, तदर्थ आधार पर उप-सचिव के रूप में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों के नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें नियमित आधार पर सीएसएस (उप-सचिव) के चयन ग्रेड में नियुक्त करते हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सीएसएल नं.	नियुक्ति की तारीख/नियमित आधार पर नियुक्ति
1.	श्री ए. के. शर्मा	5036	01.07.2012/20.11.2012
2.	श्री सुरेश चन्द्र	5071	01.07.2012/26.11.2012

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

दिनांक 6 सितम्बर 2016

सं. ए-19011/20/2013-स्था.—श्री शेर सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वस्त्र मंत्रालय, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अगस्त, 2016 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 अगस्त 2016

शुद्धिपत्र

सं. ए-12026/5/2016-स्था.—इस मंत्रालय के दिनांक 05.08.2016 की समसंख्यक अधिसूचना में उल्लिखित माननीय वस्त्र मंत्री की अतिरिक्त निजी सचिव, सुश्री देवांशी शाह के नाम को सुश्री शाह देवांशी विरेन पढ़ा जाए।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

दिनांक 26 सितम्बर 2016

सं. ए-12026/10/2016-स्था.—राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार सिंह, एसएसए, सीएससीएस, उच्च शिक्षा विभाग को वस्त्र मंत्रालय में पे मैट्रिक्स (47,600—1,51,100/— रुपए) के लेवल 8 में श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय वस्त्र मंत्री के सहायक निजी सचिव के पद पर 20 सितम्बर, 2016 (अपराह्न) से मंत्री के साथ सहपर्यंत आधार पर अथवा मंत्री के सहायक निजी सचिव के पद पर कार्य करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जयश्री शिवकुमार, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 30 सितम्बर 2016

सं. ए-20012/02/2000-स्था.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री देवाशीष घोष, अनुभाग अधिकारी, खा.प्र.उ.मं., केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 74 के तहत 30 सितम्बर, 2016 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

तुआल जा काम, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 2016

सं. ए-12015/1/2014-स्था-I—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस.1 (डी) दिनांक 15.09.2016 के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री के. एम. एस. खालसा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के पद पर पूर्व संशोधित पीबी-3 रु. 15,600—39,100/— + ग्रेड पे रु. 7,600/—, तदनुसार सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के स्तर-12 के तहत, के वेतनमान में दिनांक 20.09.2016 की पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. श्री के. एम. एस. खालसा की उप सचिव के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस.1 (डी) दिनांक 15.09.2016 में उल्लेखित शर्तों के अधीन है।

संदीप सक्सेना, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 30 सितम्बर 2016

सं. ए-38011/12/2016-स्थापना—महामहिम राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर कार्यरत श्री ए. वी. चैन्नुलू को दिनांक 30 सितम्बर, 2016 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 सितम्बर 2016

सं. ए-12025/18/2014-के.स्वा.सेवा-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. मोनिल सिंघई को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीक्षा पर दिनांक 29 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-III [पूर्ववत विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान)] (सूक्ष्मजीव विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 सितम्बर 2016

सं. ए-12025/45/2015-के.स्वा.सेवा-IV—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. अंजलि शर्मा को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में परीक्षा पर दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक विशेषज्ञ ग्रेड-III (विकृति विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/46/2014-सीएचएस-III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राजीव कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में सर्जरी विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर 21.07.2014 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक, परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/133/2014—सीएचएस—III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. सुजाता आर्य को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के लोक स्वास्थ्य उप-संवर्ग में लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ग्रेड—III [तत्कालीन विशेषज्ञ ग्रेड—II (जूनियर स्केल)] के पद पर 24.12.2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 28 सितम्बर 2016

सं. ए-12025/70/2014—सीएचएस—III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. मनोज कुमार को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में जीवाणु विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के पद पर 31.01.2015 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक, परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 29 सितम्बर 2016

सं. ए-19011/04/2012—के.स्वा.सेवा—IV—भारत के राष्ट्रपति, माननीय श्री प्रणब मुखर्जी, महाजन इमेजिंग, के-18, हौज खास इन्कलेव, नई दिल्ली-110016 के संस्थापक व मुख्य विकिरण विज्ञानी, डॉ. हर्ष महाजन, एमडी, को 01 सितम्बर, 2016 से को उनके कार्यकाल तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानद विकिरण विज्ञानी नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2016

सं. ए-12025/85/2014—सीएचएस—III—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रविंदर कुमार साह को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग में भेषज गुण विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के पद पर 04.07.2014 के अपराह्न से और आगामी आदेशों तक, परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर 2016

सं. ए-38013/14/2015—प्रशा.—I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्रीमति रामा एस. शर्मा, अनुभाग अधिकारी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.08.2016 की अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हुई हैं।

जितेन्द्र सिंह, उप निदेशक (प्रशा.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

सं. 7-7/2009/एमसी (पार्ट)—भारत के राष्ट्रपति, श्री मधु रंजन कुमार, भारतीय रेल भंडारण सेवा (1984) को उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सचिव (संयुक्त सचिव स्तर), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) के पद पर दिनांक 22.09.2016 से उनकी अधिवर्षिता अर्थात् दिनांक 30.06.2021 तक या आगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पे-बैंड 37,400—67,000/— (पीबी-4), ग्रेड पे 10,000/— में नियुक्त करते हैं।

के.पी.जे. जराल्ड, अवर सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अगस्त 2016

सं. पीएफ/1307/एनआईसी/2016-प्रशा.-I—डॉ. बी. नारायण शेड्टी वैज्ञानिक-जी (कर्मचारी कोड : 1307), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली से 31 अगस्त, 2016 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया गया है।

सुभाष दत्ता, संयुक्त निदेशक

दिनांक 8 सितम्बर 2016

सं. पीएफ/2671/एनआईसी/2016-प्रशा.-I—श्री सुसांता कुमार पांडा, वैज्ञानिक-जी (कर्मचारी कोड : 2671), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उड़ीसा राज्य इकाई, भुवनेश्वर से 31 अगस्त, 2016 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया गया है।

सुभाष दत्ता, संयुक्त निदेशक

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
[भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)]

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 सितम्बर 2016

सं. ए-19012/108/16-यूआईडी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के पत्र सं. ए-12013/21(एसओ/मुख्यालय)/11-यूआईडी.ए.आई. (खंड दो) दिनांक 28.07.2016 तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के कार्य-मुक्त आदेश पीएफ सं. 4-68/2009-स्था. दिनांक 31.08.2016 के अनुसरण में, श्री यशपाल सिंह ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय), नई दिल्ली में, वेतन बैंड 9,300-34,800/- + 4,800/- रु. ग्रेड पे में, प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 01.09.2016 (पूर्वाहन) से अनुभाग अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनकी यह तैनाती तीन वर्ष के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

रजनीश झा, उप निदेशक (स्था.)

दिनांक 14 सितम्बर 2016

सं. ए-19011/172/16-यूआईडी.ए.आई.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.08.2016 के संदर्भ संख्या 33/10/2016-ई.ओ. (एस.एम.-I) द्वारा संसूचित तथा मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुसरण में श्री वी.जी. रेड्डी, आईआरएसईई (1984) ने सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल कुल 5 वर्ष की अवधि अर्थात् 10.06.2020 अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वेतन बैंड रु. 37,400-67,000/- + 10,000/- ग्रेड वेतन में लेटरल शिफ्ट आधार पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली में उप-महानिदेशक (डीडीजी) के पद पर दिनांक 02.09.2016 (पूर्वाहन) से कार्यभार संभाल लिया है।

रजनीश झा, उप निदेशक (स्था.)

दिनांक 19 सितम्बर 2016

सं. ए-19011/30/2013-यूआईडी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25.11.2013 तथा सक्षम अधिकारी की मंजूरी के अनुसरण में, श्री संजय कुमार, सहायक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ की प्रतिनियुक्ति अवधि को दो वर्ष के लिए यानि 11.11.2016 से 10.11.2018 तक चौथे व पाँचवें साल में, या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, तब तक बढ़ाया जाता है।

रजनीश झा, उप निदेशक (स्था.)

सं. ए-19011/88/12-यू.आई.डी.ए.आई.—यूआईडीएआई मुख्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.01.2013, जिसके द्वारा श्री सुरेश दत्त शर्मा को यूआईडीएआई में दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) से तदर्थ आधार पर सहायक महानिदेशक (उप-सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, के अनुक्रम में और तदुपरांत समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 12.12.2013 व 08.09.2014 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 06.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2016-सीएस-I(डी) के द्वारा सलैक्शन ग्रेड (उप सचिव स्तर), केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की वर्ष 2012 की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप श्री सुरेश दत्त शर्मा (सीएसएल न. 5139), को उसी तारीख अर्थात् 31.12.2012 (अपराह्न) से अगले आदेश तक, नियमित आधार पर सहायक महानिदेशक (उप-सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

रजनीश झा, उप निदेशक (स्था.)

दिनांक 21 सितम्बर 2016

सं. ए-19011/85/12-यू.आई.डी.ए.आई.—यूआईडीएआई मुख्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.12.2012, जिसके द्वारा श्री डी.पी. सिंह को यूआईडीएआई में दिनांक 16.10.2012 (पूर्वाह्न) से तदर्थ आधार पर सहायक महानिदेशक (उप-सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, के अनुक्रम में और तदुपरांत समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 12.12.2013 व 09.09.2014 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 06.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2016-सीएस-I (डी) के द्वारा सलैक्शन ग्रेड (उप सचिव स्तर), केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की वर्ष 2012 की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप श्री डी. पी. सिंह (सीएसएल न. 4953), को उसी तारीख अर्थात् 16.10.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक, नियमित आधार पर सहायक महानिदेशक (उप-सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

रजनीश झा, उप निदेशक (स्था.)

सं. ए-19012/94/13-यू.आई.डी.ए.आई.—भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 21.05.2013 और 18.05.2016 तथा सक्षम अधिकारी की मंजूरी के अनुसरण में, श्री प्रमोद कुमार, उप निदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली की प्रतिनियुक्ति अवधि को आठ महीने के लिए यानि 20.05.2017 तक चौथे साल में, या अगले आदेश होने तक जो भी पहले हो, तब तक बढ़ाया जाता है।

रजनीश झा, उप निदेशक (स्था.)

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 27 सितम्बर 2016

सं. ई(ओ)III-2016/आरएन/10—भारतीय रेल विद्युत अभियंता सेवा के अधिकारी श्री संजय कुब्बा (जन्म तिथि : 18/11/1965, डीआईओएस : 02/12/1991) का दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 19.09.2016 (अपराह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर. के. वर्मा, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 फरवरी 2016

सं. ए-22013/2/2014-प्रशा.II—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01/02/2016 के आदेश सं. 5/3/2015-सीएस-I(यू) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री मनोज कुमार बंसल, सीएसएल सं.-9010 को दिनांक 04/02/2016 (पूर्वाह्न) से पीबी-3 में 6,600/- रुपए के ग्रेड-पे के साथ 15,600—39,100/- रुपए के वेतनमान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में ग्रेड-I (अवर सचिव) पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उन्हें इस मंत्रालय में कार्य ग्रहण करने पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक अवर सचिव (एमयूसी), मुख्य सचिवालय का कार्य सौंपा जाता है।

3. इसके अतिरिक्त, उनकी यह पदोन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश में निर्धारित शर्तों के अधधीन होगी।

डी. के. चावला, अवर सचिव

दिनांक 25 फरवरी 2016

सं. ए-22014/3/2016-प्रशा.II—राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई), 2014 उत्तीर्ण करने और तत्पश्चात कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22/01/2016 के का.ज्ञा. सं. 6/11/2014-सीएस-I(एस) के तहत परीक्षा कोटे के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें इस मंत्रालय में अपना कार्य ग्रहण करने की तारीख से नियमित आधार पर सीएसएस संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें उसी तारीख से मुख्य सचिवालय/संबद्ध कार्यालय(यों) की पंजिका में शामिल करके निम्नानुसार तैनात किया जाता है :—

क्र. सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान/पूर्व मंत्रालय/विभाग	रैंक सं./चयन सूची वर्ष	सू. व प्र. मंत्रालय में कार्य ग्रहण करने की तारीख	इस मंत्रालय में तैनाती का स्थान
1.	चंद्र शेखर सिंह	मुख्य सचिवालय, सू. व प्र. मंत्रालय	22/2014	22/01/2016 (अपराहन)	आकाशवाणी महानिदेशालय (मुख्य सचिवालय के बीपीएंडएल अनुभाग के ऋण आधार पर कार्य करेंगे)
2.	राजीव रंजन कुशवाहा	मंत्रिमंडल सचिवालय (गृह मंत्रालय)	39/2014	29/01/2016 (पूर्वाहन)	मुख्य सचिवालय में अनुभाग अधिकारी (बीएपी)
3.	शंभु नाथ गुप्ता	दूरदर्शन महानिदेशालय	44/2014	22/01/2016 (अपराहन)	पत्र सूचना कार्यालय

2. इसके अतिरिक्त, उनकी नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अधधीन होगी।

डी. के. चावला, अवर सचिव

सं. ए-23021/3/2015-प्रशा.II—राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों द्वारा आईएसटीएम द्वारा आयोजित स्तर 'ख' प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31/08/2015 के का.ज्ञा. सं. 6/1/2015-सीएस-I(एस) के तहत दी गयी सूचना के अनुसार उनके नाम वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत वर्ष 2015 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें अपने-अपने नाम के सामने उल्लिखित नए तैनाती स्थल पर अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से वर्ष 2015 की चयन सूची के अंतर्गत नियमित आधार पर सीसीएस के अनुभाग अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान तैनाती	नयी तैनाती
1.	वीना एन. चौहान	आकाशवाणी महानदेशालय	आकाशवाणी महानिदेशालय
2.	आर. सुरेश	पत्र सूचना कार्यालय	दूरदर्शन महानिदेशालय

2. इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिकारियों को एसओएसएल-2015 के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में शामिल किया जाना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अध्वधीन होगा।

डी. के. चावला, अवर सचिव

दिनांक 17 मई 2016

सं. ए-22011/1/2015-प्रशा. II—राष्ट्रपति, सुश्री अंजु निगम, भारतीय डाक सेवा (1988) को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में दिनांक 12.05.2016 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ग्रेड पे 10,000/- रु. के साथ पे बैंड-4 (37,400—67,000/- रु.) में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक संयुक्त सचिव (प्रसारण-II) का कार्यभार सौंपा जाता है।

डी. के. चावला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 फरवरी 2016

सं. ए-12025/06/2011-एफ(ए)—राष्ट्रपति, भारतीय डाक सेवा की अधिकारी (आईपीओएस : 1997) श्रीमती स्वाति पाण्डेय को दिनांक 07.09.2016 के पूर्वाह्न से दिनांक 06.12.2018 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 8,700/- रु. के ग्रेड पे के साथ 37,400—67,000/- रु. (पीबी-4) के पे बैंड में फिल्म प्रभाग, मुंबई में निदेशक, प्रशासन के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

एस. बी. पाण्डेय, अवर सचिव

NITI AAYOG

New Delhi, the 12th September 2016

No. M-13040/19/2016-Infra (Part File)—Consequent upon his selection to the post of Head (Administration), the President is pleased to appoint Shri Brajesh Kumar Mathur, CSS Under Secretary, UPSC (CSL No. 6635) as Head (Administration) in the PB-3, 15,600—39,100/- (Grade Pay of Rs. 7,600/-) (Pre revised) in NITI Aayog (Atal Innovation Mission) w.e.f. 12.09.2016 (FN) on deputation basis upto March, 2017 or until further order whichever is earlier.

RAM VILAS PREMI, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 21st September 2016

No. A-19/G-A/107—The tenure of deputation of Ms. Padma Angmo, (IIS : 2002), Deputy Secretary whose services were initially placed at the disposal of the Election Commission of India vide Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Office Memorandum No. 14/4/2011-EO(MM-I), dated 04.10.2011 for a period of four years w.e.f. 02.01.2012 (F/N) vide Notification No. A-19/G-A/107 dated 13.01.2012, of Election Commission of India, which was extended for six months upto 30.06.2016, is now further extended for a period of six months w.e.f. 01.07.2016 in pursuance of Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Office Memorandum No. 14/4/2011-EO(MM-I), dated 15.09.2016.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 22nd September 2016

No. A. 37012/3/2008-VSP(A)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. M. C. Pandey, Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice, to officiate as Chief Editor in the said Prakashan on promotion basis with effect from the forenoon of 21st September, 2016 and until further orders in the Pay Band-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- (Level 13 in the Pay Matrix of Seventh Pay Commission).

DEBADUTTA BEHERA, Under Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th September 2016

No. A-19011/1/2014-Admn. III (LA)—On attaining the age of 65 years (the tenure of) Mr. Justice (retired) Vinay Kumar Mathur, has demitted office of the Chairperson, Appellate Tribunal for Foreign Exchange, on 13th September, 2016 (afternoon) in terms of Rule 9 of Appellate Tribunal for Foreign Exchange (Recruitment, Salary and Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) rules, 2000.

UNNI KRISHNAN T. Under Secy.

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi-110011, the 20th September 2016

No. 12/56/2016-Estt.—The President is pleased to appoint Shri J. P. Bhattacharjee, an officer of Indian Statistical Services (ISS), as Statistical Adviser in Ministry of DoNER in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 8th July, 2016.

A. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 12th August 2016

No. 24011/02/2015-Estt.(B)—The President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Pandey (IRLA No. 11480), IIS as member, Staff Selection Commission, New Delhi, (Joint Secretary Level), with effect from 15th July, 2016 (Afternoon) in the Scale of Pay of PB-4 Rs. 37,000—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/- (pre-revised) on deputation basis till he attains

the age of superannuation on 31.03.2017 and thereafter on re-employment basis with effect from 01.04.2017 till he attains the age of 62 years, or until further orders, whichever is earlier.

P. K. JAISWAL, Under Secy.

The 24th August 2016

No. 24012/04/2016-Estt. (B)—The President is pleased to appoint Shri Gajendar Singh Thakur, ITS (93) to the post of Director, Staff Selection Commission (NR), New Delhi under Central Staffing Scheme with effect from 01.07.2016 (FN) for a period of five years on deputation basis or until further orders whichever is earlier.

PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

The 28th September 2016

No. 39019/09/2014-Estt. (B)—Consequent upon attaining the age of 65 years, Shri Deepak Gupta has demitted the office of Chairman, Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 20th September, 2016.

PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

New Delhi, the 22nd September 2016

No. A-32015/8/2006-Cadre (Ad. IV)—Consequent upon inclusion in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2015 against Seniority Quota, the President is pleased to grant proforma promotion under Next Below Rule to the following Assistant Section Officer, presently on deputation to the office mentioned against her name, as Section Officer (Group 'B' Gazetted) of Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions with effect from 30.03.2016 :—

Name of the Officer	Select List Year	Name of the office where working on deputation at present
Smt. S. Rajalakshmi	2015 (SQ)	On deputation as Section Officer in Prasar Bharati

KULBHUSHAN MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 28th September 2016

No. 14012/01/2014-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule-3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Uma Sankar S, member of the Indian Administrative Service of West Bengal Cadre of 2011 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 29.08.2013.

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

No. 14013/02/2014-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule-3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of West Bengal in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :

Sl. No.	Name of the officer (S/Sh.Smt.)	Batch	Due date of confirmation
1.	Durgadas Goswami	2000	25.08.2012
2.	Piyali Sengupta	2002	13.01.2013

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 12th September 2016

No. 5/2016 (F. No. A-12026/5/2016-CA)—The President of India is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Srivastava, Joint Area Organiser, Frontier Hqrs Sashastra Seema Bal, Patna as Joint Commissioner in the Office of Competent Authority & Administrator, Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, Chennai on deputation basis for a period of four years with effect from the forenoon of 1st September, 2016 till 31st August, 2020 or until further orders, whichever is earlier.

S. BHOWMICK, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 19th September 2016

No. A-19011/11/2016-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation vide its order No. 12015/03/2014-ISS(Vol. V) dated 03.08.2016, the President is pleased to appoint Shri Moinak Mukherjee of the ISS Cadre as Deputy Director in the Department of Financial Services with effect from the forenoon of 01.09.2016.

MANISH KUMAR, UnderSecy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF COMMERCIAL INTELLIGENCE AND STATISTICS

Kolkata-700107, the 8th September 2016

No. 26(3)/82-Estt. I—Dr. Dipankar Sinha, Director General, has retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.08.2016.

R. C. SUKLABAIDYA, Dy. Dir.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 27th September 2016

No. 13/2016 (A. 32013/2/2015/HRD-I)—Consequent upon their promotion, the President is pleased to appoint the following Assistant Director General of Foreign Trade to the post of Deputy Director General of Foreign Trade, {Senior time Scale of Indian Trade Service} on regular basis in the revised Pay Matrix Level 11, Rs. 67,700—2,08,700/- with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the officer	Date of Appointment
1.	Shri Jai Pal	27.06.2016
2.	Shri Gagandeep Singh	09.06.2016
3.	Shri Nitish Suri	20.06.2016
4.	Shri Alok Dwivedi	22.06.2016
5.	Shri Kaushlendra Pratap Singh	21.06.2016
6.	Shri Vishal Sharma	15.06.2016
7.	Shri Rajiv Kumar Soni	10.06.2016

NIRMAL KUMAR, Dy. Dir. General of Foreign Trade

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 5th August 2016

No. A-12026/5/2016-Estt.—The President is pleased to appoint Ms. Devanshi Viren Shah as Additional Private Secretary to Smt. Smriti Zubin Irani, Minister of Textiles in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 6,600/-, in the

Ministry of Textiles, on co-terminus basis with the Minister with effect from the forenoon of 3rd August, 2016 or till she ceases to function as Addidation Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

The 11th August 2016

No. A-19011/11/2012-Estt.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS for the year 2012 by the Department of Personnel & Training vide its OM No. 4/4/2016-CS.I(D) dated 6th June, 2016, the President is pleased to appoint the following Officers of Grade-I of Central Secretariat Service working as Deputy Secretary on ad-hoc basis, to Selection Grade of CSS (Deputy Secretary), on regular basis, as per details indicated below :—

Sl. No.	Name of officer	CSL No.	Deemed date of appointment/Appointment on regular basis
1.	Shri A. K. Sharma	5036	01.07.2012/20.11.2012
2.	Shri Suresh Chandra	5071	01.07.2012/26.11.2012

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

The 31st August 2016

No. A-19011/20/2013-Estt.—Shri Sher Singh, Joint Director (OL) in the Ministry of Textiles retired from Government service on his attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st August, 2016.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

The 6th September 2016

CORRIGENDUM

No. A-12026/5/2016-Estt.—The Name of Ms. Devanshi Shah, Additional PS to Hon'ble Minister of Textiles mentioned in this Ministry's Notification of even number dated 05.08.2016 may be read as Ms. Shah Devanshi Viren.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

The 26th September 2016

No. A-12026/10/2016-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Singh, SSA of CSCS in the Department of Higher Education as Assistant Private Secretary to Smt. Smriti Zubin Irani, Hon'ble Minister of Textiles in Level 8 of Pay Matrix (Rs. 47,600—1,51,100/-), in the Ministry of Textiles, on co-terminus basis with the Minister with effect from of 20th September, 2016 (AN) or till he ceases to function as Assistant Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

JAYASHREE SIVAKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 30th September 2016

No. A-20012/02/2000-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Debashish Ghosh, Section Officer, Ministry of Food Processing Industries stands superannuated frm Government Service w.e.f. 30.09.2016 (A.N), in accordance with Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.

TUAL ZA KAM, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 26th September 2016

No. A. 12015/1/2014-E.I.—In pursuance of the Department of personnel & Training's Order No. 4/11/2015-CS-I(D) dated 15.09.2016, the President is pleased to appoint Shri K. M. S. Khalsa, a regular Under Secretary of CSS to the post of Deputy Secretary of CSS on ad-hoc basis in the Department of Food & Public Distribution in the pre-revised PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- corresponding to Level-12 of the Pay Matrix of the 7th CPC with effect from the forenoon of 20.09.2016.

2. The appointment of Shri K. M. S. Khalsa to the Grade of Deputy Secretary on ad-hoc basis is subject to the conditions mentioned in Department of Personnel & Training's Order No. 4/11/2015-CS-I(D) dated 15.09.2016.

SANDEEP SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 30th September 2016

N. A-38011/12/2016-Estt.—The President is pleased to retire Shri A. V. Chainulu, Scientist 'F', Department of Scientific and Industrial Research from Government Service on 30th September, 2016 (AN) on attaining the age of superannuation.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 7th September 2016

No. A-12025/18/2014-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Monil Singhai to the post of Specialist Grade-III [erstwhile Specialist Gr. II (Jr. Scale)] (Microbiology) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the forenoon of the 29th December, 2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 27th September 2016

No. A-12025/45/2015-CHS-IV—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anjali Sharma to the post of Specialist Grade-III (Pathology) in the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Services on probation with effect from the forenoon of the 12th September, 2016 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/46/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rajeev Kumar to the post of Assistant Professor in the speciality of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 21.07.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/133/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sujata Arya to the post of Public Health Specialist Grade-III [erstwhile Specialist Grade II (Junior Scale)] in the Public Health Sub-Cadre of Central health Service, on probation, with effect from the forenoon of 24.12.2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 28th September 2016

No. A. 12025/70/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Manoj Kumar to the post of Assistant Professor in the speciality of Microbiology in the Teaching specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 31st January, 2015 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 29th September 2016

No. A. 19011/04/2012-CHS.IV—The Hon'ble President of India, Shri Pranab Mukherjee is pleased to appoint Dr. Harsh Mahajan, MD, Founder & Chief Radiologist, Mahajan Imaging, K-18, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016 to his panel of Honorary Radiologist with effect from 1st September, 2016, till his tenure or until further order, whichever is earlier.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 30th September 2016

No. A. 12025/85/2014-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ravinder Kumar Sah to the post of Assistant Professor in the speciality of Pharmacology in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central health Service, on probation, with effect from the afternoon of 4th July, 2014 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 30th September 2016

No. A-38013/14/2015-Admn.I—Smt. Rama S. Sharma, Section Officer of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.05.2016.

JITENDER SINGH, Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 6th October 2016

No. 7-7/2009/MC(Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Madhu Ranjan Kumar, Indian Railway Store Service (1984) to the post of Secretary (Joint Secretary Level), National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) under the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 22.09.2016 till the date of his superannuation, i.e. upto 30.06.2021 or until further orders, whichever is earlier.

K. P. J. GERALD, Under Secy.

MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi-110003, the 31st August 2016

No. PF/1307/NIC/2016/Adm.I—Dr. Bijri Narayana Shetty, Scientist-G (Emp. Code : 1307) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st August, 2016 and he stands relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Jt. Dir. (Admn.)

The 8th September 2016

No. PF/2671/NIC/2016/Adm.-I—Shri Susanta Kumar Panda, Scientist-G (Emp. code : 2671) of National Informatics Centre, Odisha State Unit, Bhubaneswar retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st August, 2016 and he stands relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Jt. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

[UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA (UIDAI)]

New Delhi-110001, the 5th September 2016

No. A-19012/108/16-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, New Delhi letter No. A-12013/21(SO/HQ)/11-UIDAI (Vol.II) dated 28.07.2016 and subsequent Relieving Order PF No. 4-68/2009/Estt. dated 31.08.2016 of National Book Trust, India, New Delhi, Shri Yashpal singh has assumed the charge of the post of Section Officer in HQ, Unique Identification Authority of India, HQ, New Delhi w.e.f. 01.09.2016 (F/N) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt.)

The 14th September 2016

No. A-19011/172/16-UIDAI—In pursuance of approval of Appointments Committee of the Cabinet conveyed by the Department of Personnel & Training vide reference N. 33/10/2016-EO(SM-I) dated 22.08.16, Shri V. G. Reddy, IRSEE (1985) has assumed the charge of the post of Deputy Director General (DDG) in Unique Identification Authority of India, HQ, New Delhi under the Ministry of Electronics & Information Technology on lateral shift basis w.e.f. 02.09.2016 (F/N) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- for overall period of five years central deputation tenure i.e. upto 10.06.2020 or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt.)

The 19th September 2016

No. A-19011/30/2013-UIDAI—In continuation of UIDAI HQ Notification of even number dated 25.11.2013 and in pursuance of approval of the Competent Authority, the deputation period of Shri Sanjay Kumar, Assistant Director General in Unique Identification Authority of India, Regional Office, Chandigarh has been extended further for a period of two years i.e. 11.11.2016 to 10.11.2018 (4th and 5th years) or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt.)

No. A-19011/88/12-UIDAI—In continuation of UIDAI HQ Notification of even No. dated 07.01.2013 appointing Shri Suresh Dutt Sharma as Assistant Director General (Deputy Secretary Level) in UIDAI on adhoc basis w.e.f. 31.12.2012(A/N) and subsequent Office Order of even number dated 12.12.2013, 08.09.2014 and consequent on inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2012 vide Department of Personnel & Training (DOPT), Office Memorandum No.4/4/2016-CS-I(D) dated 06.06.2016, Shri Suresh Dutt Sharma (CSL No. 5139), is appointed as Assistant Director General (Deputy Secretary Level) on regular basis w.e.f. the same date i.e. 31.12.2012(A/N), until further orders.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt.)

The 21st September 2016

No. A-19011/85/12-UIDAI—In continuation of UIDAI HQ Notification of even No. dated 04.12.2012 appointing Shri D.P. Singh as Assistant Director General (Deputy Secretary Level) in UIDAI on adhoc basis w.e.f. 16.10.2012 (F/N) and subsequent Office Order of even number dated 12.12.2013, 09.09.2014 and consequent on his inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) for the year 2012 vide Department of Personnel & Training (DOPT), Office Memorandum No.4/4/2016-CS-I(D) dated 06.06.2016, Shri D.P. Singh (CSL No. 4953), is appointed as Assistant Director General (ADG) (Deputy Secretary level) on regular basis w.e.f. the same date i.e. 16.10.2012, until further orders.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt.)

No. A-19012/94/13-UIDAI—In continuation of UIDAI HQ Notification of even numbers dated 21.05.2013 and 18.05.2016 and in pursuance of approval of Competent Authority, the deputation period of Shri Pramod Kumar, Deputy Director in HQ, Unique Identification Authority of India, New Delhi has been extended further for a period of eight months i.e. upto 20.05.2017 for the 4th year or until further orders whichever is earlier.

RAJNISH JHA, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 27th September 2016

No. E (O)III-2016/RN/10—Consequent upon his permanent absorption in DMRC, Shri Sanjay Kubba, officer of the Indian Railway Services of Electrical Engineers (DoB : 18.11.1965, DITS : 02.12.1991) has resigned from Railway Service with effect from 19.09.2016.

R K VERMA, Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 9th February 2016

No. A-22013/2/2014-Admn. II—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on ad-hoc basis vide DoPT's Order No. 5/3/2015-CS.I (U) dated 01.02.2016, the President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Bansal, CSL No.-9010, Section Officer of CSS in M/o Home Affairs as Grade-I (Under Secretary) in M/o Information & Broadcasting in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 04.02.2016 (F/N).

2. On his joining this Ministry, he is assigned the charge of Under Secretary (MUC), Main Secretariat, with immediate effect and until further orders.

3. Further, his such promotion would be subject to conditions as laid down in DoPT's O.M. ibid.

D. K. CHAWLA, Under Secy.

The 25th February 2016

No. A-22014/3/2016-Admn. II—Consequent upon qualifying Limited Departmental Competitive Examination (LDCE), 2014 for Section Officer of CSS and subsequent nomination to this Ministry against Examination quota as conveyed by DoPT vide its O.M. No. 6/11/2014-CS.I(S) dated 22.01.2016, the President is pleased to appoint the undermentioned Assistant Section Officers of CSS as Section Officers of CSS on regular basis in M/o Information & Broadcasting w.e.f. the date of joining their duties in this Ministry. Further, they are taken on the rolls of the Main Sectt./Attached Office(s) and subsequently posted as under w.e.f. the same date :—

Sl. No.	Name (S/Shri/Ms.)	Present/Previous Ministry/Deptt.	Rank No./ Select List Year	Date of joining M/o I&B	Posting given in this Ministry
1.	Chandra Shekhar Singh	Main Sectt. M/o I&B	22/2014	22.01.2016 (A/N)	DG:AIR [Will work in BP&L section of Main Sectt. on loan basis]
2.	Rajeev Ranjan Kushwaha	Cabinet Sectt. (MHA)	39/2014	29.01.2016 (F.N)	Main Sectt. as SO (BAP)
3.	Shambhu Nath Gupta	DG:DDn	44/2014	22.01.2016 (A/N)	PIB

2. Further, their appointments shall be subject to the conditions as laid down in DoPT's O.M. ibid.

D. K. CHAWLA, Under Secy.

No. A-23021/3/2015-Admn.II—Consequent upon successful completion of Level 'B' Training Programme conducted by ISTM and on inclusion of their names in the Select List of Section Officers' Grade of Central Secretariat Service for the year 2015 against Seniority Quota as conveyed by DoPT's O.M. No. 6/10/2015-CS-I(S) dated 31.08.2015, the President is pleased to appoint the undermentioned Assistant Section Officers of CSS, Cadre of Ministry of Information &

Broadcasting, as Section Officers of CSS on regular basis for the Select List year 2015 with effect from the date of assumption of charge of the post in new place of posting as mentioned against each :—

Sl. No.	Name (S/Sh./Ms.)	Present Posing	New Posting
1.	Veena N. Chauhan	DG : AIR	DG : AIR
2.	R. Suresh	PIB	DG : DD

2. Further, inclusion of above mentioned officers in the Grade of Section Officer for SOSL-2015 is subject to the conditions as laid down in DoPT's O.M. referred above.

D. K. CHAWLA, Under Secy.

The 17th May 2016

No. A-22011/1/2015-Admn. II—The President is pleased to appoint Ms. Anju Nigam, Indian Postal Service (1988) as Joint Secretary in Ministry of Information & Broadcasting in Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 12.05.2016 (A/N) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

2. On her appointment as Joint Secretary in this Ministry, she is assigned the charge of Joint Secretary (Broadcasting-II) with immediate effect and until further orders.

D. K. CHAWLA, Under Secy.

New Delhi, the 29th September 2016

No. A-12025/06/2011-F(A)—The President is pleased to appoint Smt. Swati Pandey an officer of Indian Postal Service (IPoS:1997), as Director of Administration in Films Division, Mumbai in the Pay Band of RS. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of Rs. 8,700/- on deputation basis w.e.f. the forenoon of 07.09.2016 for a period upto 06.12.2018 or until further orders, whichever is earlier.

S. B. PANDEY, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in